

मोनेरको अल्युमनाई एसोसियेशन कार्यकारिणी व आयोग से चयनित अल्युमनाई का सम्मान

By- **Akshat Times**

November 16, 2021 | 3 | 0



लखनऊ : मोती लाल नेहरू राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान के लखनऊ चैप्टर के अल्युमनाइ द्वारा '2020-21 की कार्यकारिणी की आखिरी बैठक' का आयोजन फेयरफील्ड होटेल मैरियट में 13 नवम्बर 2021 को किया गया तथा लगभग 10 से अधिक संख्या में प्रदेश व संघ लोक सेवा आयोग से चयनित अल्युमनाई जिसमें सर्वश्री अजय जैन, दिव्यांशु तिवारी, निखिल यादव, विजय मेहतो, शशी उत्तम, योगेश शर्मा, रजनीश प्रताप सिंह, शुभम अग्रवाल, अविनाश कुमार और विवेक चंद्रा आदि के साथ-साथ संस्थान के दो प्रोफेसरो डा. केएन पांडेय व डा. धर्मेन्द्र शुक्ला ने भी भाग लिया। सर्व प्रथम वाइस प्रेसिडेंट, व कार्यक्रम संचालक, ई. मंजीत सिंह ने सभी का परिचय कराया। तदोपरांत अध्यक्ष प्रोफ. भरत राज सिंह को स्वागत भाषण के लिये आमंत्रित किया।

अध्यक्ष ने सभी उपस्थित आयोग से चयनित अल्युमनाई, संस्थान के प्रोफेसरो व कार्यकारिणी के महासचिव, प्रोफ. अशोक तिवारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, बी.सी.राय व डी.के.भंडारी, उपाध्यक्ष, अशुतोष श्रीवास्तव व मंजीत सिंह, तथा उप-सचिव, सुनित वर्धन, कोषाध्यक्ष, अभिशेक पांडेय, सम्मानित सदस्यगण ब्रिगे. बी.डी. पांडेय, राजीव गोएल, अजय स्तोगी, विमल शुक्ल व निसांत अग्रवाल का स्वागत करते हुये, लखनऊ चैप्टर के विषय में यह अवगत कराया कि यह प्रथम पंजीकृत 400 सदस्यो से अधिक की अल्युमनाइ है और सामाजिक व जलवायु प्रदूषण को रोकने हेतु पौधा रोपड़, सोलर लगवाने हेतु प्रचार आदि पर भी सक्रियता से कार्य कर रही है। इसके उपरांत सभी प्रदेश व संघ लोक सेवा आयोग से चयनितो को मोमेंटो व योग- दर्शन की पुस्तक से सम्मानित किया गया तथा उनके अपने अनुभवों को साझा किया गया। इसके पश्चात दोपहर का भोज कराया गया और संस्थान के प्रतिनिधियो से अपेक्षा की गयी कि इस प्रकार का उत्साहवर्धन आयोजन उनके द्वारा भी कराया जाय।

इसके पश्चात मोनेरको एसोसियेशन के पदाधिकारियों की कार्यकारिणी की बैठक सम्पन्न हुई और समान्य बैठक व समाजिक कार्य करने का कार्यक्रम तय किया गया। बैठक का धन्यवाद प्रस्ताव महासचिव प्रोफ. ए.के. तिवारी जी द्वारा पारित कर अध्यक्ष की अनुमति से बैठक समाप्त की गयी। उक्त आयोजन को सफल बनाने में, मंजीत सिंह व अशोक तिवारी जी के अथक प्रयास की भूरि-भूरि प्रशंसा अध्यक्ष व पदाधिकारियो द्वारा कर्तल ध्वनि से की गयी।

<https://akshattimes.com/honour-of-alumni-selected-from-executive-and-commission-of-monroe-alumni-association/>